

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
प्रो. सर सी.वी.रामन रोड़, सदाशिवनगर डाक घर
पो. बा. सं. 8066, बेंगलूर - 560 080
सिविल इंजीनियरी प्रभाग

सीपीआरआई/सीईडी/कार्य/1341/2020-21

17 सितम्बर 2020

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईक्यू)

कार्य का नाम : सदाशिवनगर, बेंगलूर के सीपीआरआई कार्यालय परिसर की वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण 2020-21, उपशीर्ष: आईएचआरडी परियोजना, सामग्री प्रौद्योगिकी प्रभाग के लिए ठोस स्थायी क्षेत्र उपलब्ध कराना।

कोटेशन की अनुमानित लागत रु.48,968/-

कार्य की अनुमत अवधि - पंद्रह दिन

सुरक्षा प्रतिभूति - कार्य के स्वीकृत उद्धृत मूल्य के 5 % के दर पर

बयाना निक्षेप (ई एम डी) - रु. 980/-

महानिदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की ओर से सिविल कार्य से संबंधित अभिकरणों से निम्न कार्य " सदाशिवनगर, बेंगलूर के सीपीआरआई कार्यालय परिसर की वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण 2020-21 उपशीर्ष: आईएचआरडी परियोजना, सामग्री प्रौद्योगिकी प्रभाग के लिए ठोस स्थायी क्षेत्र उपलब्ध कराने" के सिविल कार्य के लिए मुहरबंद मद-दर दरसूची (मद-दर नीचे अनुसूची ए में उद्धृत करें) आमंत्रित हैं। विहित खाली कोटेशन फार्मों को प्रभारी इंजीनियर, सिविल इंजीनियरी प्रभाग, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर के कार्यालय से 31 अगस्त 2020 को समाप्त गत सात वर्षों के दौरान रु.39,175/- के परिमाण के कम से कम एक समतुल्य कार्य अर्थात् सिविल कार्य से संबंधित कार्य निष्पादन की आवश्यक दस्तावेजी सबूत की प्रस्तुति पर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन देने पर 25.09.2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक कार्यालयीन समय के दौरान सभी कार्य दिवसों पर अर्ह ठेकेदारों को खाली कोटेशन फार्म जारी किए जाएंगे। संगत दस्तावेज सहित पूर्ण रूप से भरे कोटेशन 28.09.2020 के 3.30 बजे अपराह्न तक अथवा उससे पहले अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पहुंचे। कोटेशन देनेवालों की उपस्थिति में कोटेशन अनावरण समिति द्वारा उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न को कोटेशन खोले जाएंगे। बिना कोई कारण दिए सक्षम प्राधिकारी किसी भी अथवा सभी कोटेशनों को स्वीकारने अथवा अस्वीकारने का अधिकार रखते हैं। सभी कोटेशन जिनमें निर्धारित शर्तों में से कोई पूर्ण नहीं हों अथवा किसी तरह से अपूर्ण हों, अस्वीकृत हो सकते हैं।

प्रभारी इंजीनियर